



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936

No. 47]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2015

सं. 12-प्रेज/2015.—राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों/संगठन को कुलाध्यक्ष पुरस्कार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार प्राप्तकर्ता
1.	सर्वोत्तम विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	हैदराबाद विश्वविद्यालय
2.	नवान्वेषण के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय के. चौधरी और डॉ. अमिता गुप्ता
3.	अनुसंधान के लिए कुलाध्यक्ष पुरस्कार	जामिया मिलिया इस्लामिया का ब्रह्मांड विज्ञान और खगोल भौतिकी अनुसंधान समूह

सुरेश यादव, राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2015

No. 12-Pres/2015.— The President is pleased to award the Visitor's Awards to the following persons/organisation:—

Sl. No.	Title of the Award	Awardee
1.	Visitor's Award for the Best University	Univesity of Hyderabad
2.	Visitor's Award for Innovation	Prof. Vijay K. Chaudhary & Dr. Amita Gupta from University of Delhi
3.	Visitor's Award for Research	Cosmology & Astrophysics Research Group from Jamia Millia Islamia

SURESH YADAV, OSD to the President